

प्रेषक

उज्ज्वल ज्ञातपाप

अपर मुख्य - पापिक मन्दिरेत - सारंग-5

विशेष - पापाधीश सारंग / विद्यापक

वाराणसी

Td- 0P2257

सेवा में

माननीय मन्दिरेत-दुक

माननीय मुख्य - पापात्मक

इलाहाबाद

द्वारा

माननीय ज्ञानपद - पापाधीश

वाराणसी

विषय - निपत समग्र पूर्व स्थाना-तरण के सम्बन्ध में

महोदय,

अतिरिक्त - मृत पूर्वक करबहु निवेदन है कि प्राणी वाराणसी ज्ञानपद में अपर मुख्य - पापिक मन्दिरेत / विशेष - पापाधीश सारंग-विद्यापक के पदस्थ परस्थ है।

प्राणी की माता जी मरी रोज ज्ञातपाप मन्दिरेत (वाईपोलर डिजायर्ड) रहे जीति है।

उनका इलाज डा० रोबर पादव (M.D. KGMU) के पदवेक्षण में लखनऊ में होता है। वृद्धावस्था के कारण रोग की प्रकृति में जटिलता आ गयी है।

प्राणी के वाराणसी में पदस्थ होने के कारण उसे अपनी माता के वाराणसी लाने और फिर लखनऊ बेकर जानें में काफी प्रायोगिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राणी को अपनी माता के इलाकी मन्दिरेत की स्थिति के कारण ज्ञान माद में रोज अवकाश के पश्चात अतिरिक्त अतिरिक्त अवकाश

लेना पडा । जिन गंभीरता के इस प्रकृति के
मनोरोग में माता की देखरेख आवश्यक है
कुलमें वर्तमान में प्राप्ति दी लक्ष्य है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मानवीय मद्देन
से करबद्ध निवेदन है कि प्राप्ति का स्यामा-तरण
वाराणसी जन्म पर से भरवन्तु या अन्य किसी
निकट के जन्म पर से करने के इस प्रतिवेदन को
मानवीय उच्च-पापात्मक के लक्ष्य प्रकृत
करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की
कृपा करें।

आदर ।

दिनांक 23/12-2022

मानवीय
Ujjwala Upadhyay
उज्ज्वल उपाध्याय
अपर कुर्या - पापिक मन्दिरे
विशेष - पापा धीश साकर/
विद्यापक
वाराणसी